

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक 0 एनसीएल / ज0स0वि0 / प्रेसवि0 / 2017-18 / 181

दिनांक - 24 / 07 / 2017

प्रेस विज्ञप्ति

कोयला सचिव श्री सुशील कुमार का तीन दिवसीय एनसीएल दौरा सम्पन्न
एनसीएल के आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कोयला खदानों का
किया निरीक्षण

निगाही में 5 एमटी वार्षिक क्षमता के सीएचपी विस्तार को किया राष्ट्र को
समर्पित

नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में किया मिनिमल इनवेसिव सर्जरी यूनिट का शुभारंभ,
सीएसआर न्यूजलेटर "पल्लव" का विमोचन

भारत सरकार के कोयला सचिव श्री सुशील कुमार शनिवार से सोमवार तक नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के दौरे पर रहे। अपने तीन दिवसीय एनसीएल दौरे के दौरान उन्होंने कंपनी के कोयला उत्पादन एवं उत्पादकता से जुड़े विषयों की समीक्षा की, कंपनी के निगाही, बीना और दुधीचुआ खदानों का निरीक्षण किया और कंपनी की कई नई पहल का शुभारंभ किया।

श्री कुमार एनसीएल के दौरे पर शनिवार देर शाम कंपनी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम कंपनी के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस अवसर पर कंपनी के मासिक सीएसआर न्यूजलेटर "पल्लव" का विमोचन भी किया। अपने एनसीएल दौरे की तफसील से जानकारी देते हुए उन्होंने संरक्षा (सेफ्टी) एवं पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को आगामी प्राथमिकताएं बताईं और कहा कि आने वाले समय में एनसीएल की निगमित

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत स्थानीय इलाकों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतरी पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में कई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एनसीएल द्वारा कोयला उत्पादन एवं डिस्पैच के लक्ष्य पूरा किए जाने पर एनसीएल प्रबंधन एवं कंपनी के श्रमिकों को विशेष बधाई दी और उम्मीद जाहिर की कि चालू वित्त में भी एनसीएल अपने 90 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं प्रेषण के लक्ष्यों को भी पूरा कर लेगी।

श्री कुमार ने रविवार को एनसीएल के निगाही क्षेत्र (एरिया) में कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) विस्तार फेज-III को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी वार्षिक कोयला प्रेषण क्षमता 5 मिलियन टन है। इस नई क्षमता के जुड़ने के साथ ही निगाही क्षेत्र के सीएचपी की वार्षिक क्षमता बढ़कर 15 मिलियन टन हो गई है। इसके पश्चात उन्होंने निगाही खदान का निरीक्षण किया और कृष्णा ड्रैगलाइन में जाकर ड्रैगलाइन की कार्यप्रणाली समझी।

रविवार को ही श्री कुमार ने एनसीएल के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी) में नए मिनिमल इनवेसिव सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट में लैप्रोस्कोपी, अर्थ्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी किए जाने की सुविधा है और अब एनसीएल के नेहरू अस्पताल में ये तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने यहां रिनोवेटेड ऑपरेशन थियेटर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने नेहरू अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और अस्पताल के रख-रखाव की विशेष सराहना की।

रविवार शाम एनसीएल में मुख्यालय में वे एनसीएल श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों, सीएमओएआई के प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों, परियोजना प्रभावित

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

लोगों, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय शासन-प्रशासन के अधिकारियों तथा एनसीएल के युवा अधिकारियों (जेन-नेक्स्ट) की टीम से मुखातिब हुए।

सोमवार को उन्होंने कंपनी के बीना एवं दुधीचुआ क्षेत्रों की कोयला खदान का निरीक्षण किया और दोपहर को वाराणसी के लिए रवाना हुए।

एनसीएल के दौरे के दौरान कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री तापस कुमार नाग, निदेशक (कार्मिक) सुश्री शांतिलता साहू, निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री गुणाधर पांडेय, निदेशक (वित्त) श्री पी. एस. आर. के शास्त्री, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) श्री जे. एल. सिंह तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) श्री ए. के. श्रीवास्तव उनके साथ रहे।

(जनसम्पर्क अधिकारी)

फोटो कैप्शन:-

1. निगाही सीएचपी के राष्ट्र को समर्पण की तस्वीर
2. नेहरू अस्पताल में मिनिमल इनवेसिव सर्जरी यूनिट के शुभारंभ की तस्वीर
3. निगाही डैगलाइन कृष्णा के निरीक्षण की तस्वीर
4. दुधीचुआ खदान के निरीक्षण की तस्वीर
5. प्रेस मीट की तस्वीर